

कोर्स मे शामिल होने के निर्देश

ध्येय: बल के अधीनस्थ अधिकारी तथा अन्य रैंक को प्रभारी रूप से दैनिक स्तर पर कंपनी कार्यालय, परिचालन तथा अन्य कार्यालय सम्बंधी कार्य को करने हेतु तैयार करना।

(A) कोर्स का संक्षिप्त परिचय: इस कोर्स मे कार्मिकों को कार्यालय के कामकाज के तरीके, स्थापना, लेखा, क्वाटर मास्टर, मोटर परिवहन, परिचालनीक, मोबाइल आधारित ऐप्स, कम्प्युटर एप्लिकेशन तथा अन्य बातों की अभ्यास सहित जानकारी देना।

(B) योग्यता:

- क. सिपाही से निरीक्षक तक-40 वर्ष से कम आयु के हो।
- ख. शैक्षिक योग्यता:- कम से कम 10+2 पास।
- ग. कार्यालय सम्बंधी कार्य करने का इच्छुक हो।
- घ. बुनियादी कम्प्युटर तथा टंकण (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का ज्ञान हो।
- ङ. अपेक्षित-उच्च कार्यालय/यूनिट कार्यालय/कंपनी कार्यालय या परिचालन कार्यालय मे कार्य करने का अनुभव हो।

(C) अवधि:- इस कोर्स की अवधि 8 हफ्ते की होगी सभी प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण शुरू होने से एक दिन पहले संस्थान मे रिपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रशिक्षण /कोर्स संबन्धित औपचारिकताए समय पर पूर्ण हो सके।

(D) कोर्स के लिए पुस्तक, वर्दी तथा उपकरण- सभी प्रशिक्षुक कोर्स के संबंधित निम्नलिखित समान अपने साथ लाना सुनिश्चित करे:-

क) फुल किट मौसम के अनुसार।

ख) पुस्तक केरिपुबल आदि नियम तथा नियम, GC& BN अफिसर्स मैनुअल, फंड मैनुअल, परिचालन हैंड बुक, संभरण मैनुअल, केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस छुट्टी नियम,1972), कार्यालय नियमन मैनुअल, स्थापना मैनुअल, पेन ड्राइव, ब्लैक सीडी इत्यादि।

ग) पर्याप्त लेखन सामाग्री

घ) स्मार्ट फोन।

ड) पर्याप्त वर्दी, सफ़ेद चादर तथा अवश्यक समान जो कोर्स के लिए आवश्यक हो।

(E) मैस एडवांस :- सभी प्रशिक्षक को निम्नानुसार मैस एडवांस जमा करना होगा।

1. अधिनस्थ अधिकारी - Rs-5000/-
2. अन्य रैंक- Rs -4000/-

(F) शिवपुरी में आगमन :- शिवपुरी, रेल तथा सड़क मार्ग से समुचित रूप से तथा ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा झांसी से सड़क मार्ग से समुचित रूप से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर तथा झांसी यहां से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है तथा इनकी दूरी यहाँ से क्रमशः 115 किमी तथा 109 किमी है। शिवपुरी में भी रेलवे स्टेशन है तथा यह ग्वालियर-इन्दौर-भोपाल रेलवे खण्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन इस रेल मार्ग पर रेल का आवागमन सीमित संख्या में होती है।

(G) स्थान / स्थिति :- CIAT स्कूल, शिवपुरी रेलवे स्टेशन से 08 किमी की दूरी पर गुना की तरफ NH - 03 पर स्थित है। यह राजमार्ग AB रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्थान GR - 25° 27' 03.77" N तथा 77° 38' 52.95" E तथा समुद्र सतह से 1515 फिट (462 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है।

(H) मौसम :- शिवपुरी कर्क रेखा के समीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा सूखा व शीत ऋतु में ठंडा तथा सूखा मौसम होता है। ग्रीष्म की शुरुआत मध्य अप्रैल माह से होकर मध्य जुलाई माह में समाप्त होती है। इस अवधि में तापमान 45 सेल्सियस तथा इसमें ऊपर भी चला जाता है।

(I) चिकित्सा प्रमाण पत्र :- सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोर्स हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से फिट घोषित प्रमाण पत्र अपने वार्षिक मेडिकल जाँच रिपोर्ट के साथ संस्थान में आगमन पर प्रस्तुत करेगा।

(J) प्रशिक्षण से वापसी :-

क. आवश्यक योग्यात्मक मानदण्ड (क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट) को पूरा न करने वाले अयोग्य कार्मिको को उनके यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

ख. जो प्रशिक्षु चिकित्सीय रूप से अयोग्य अथवा किसी गंभीर रोग से पीडित हो उन्हें कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी ।

ग. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारण से 05 दिन से अधिक गैर हाजिर होने पर कोर्स से वापस किया जाएगा ।

घ. प्रशिक्षुओं द्वारा किसी भी प्रकार से की गयी अनुशासनहीनता के कारण उन्हें वापस उनके यूनिट भेजा जा सकता है ।

(K) **छुट्टी** :- विशेष परिस्थिति को छोड़कर कोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी ।

(L) **दस्तावेज** :-

- क. संचालन आदेश
- ख. पहचान पत्र
- ग. कोर्स हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र
- घ. हैल्थ कार्ड
- च. वापसी का रेलवे वारंट
- छ. केशलेस भुगतान के लिए एटीएम कार्ड
- ज. 02 पासपोर्ट आकार के फोटो

(M) **अन्य** :-

1. विलम्ब से रिपोर्ट करनेवाले प्रशिक्षणार्थियों पर कोर्स में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एयर वाउचर या रेलवे वारंट वापसी के लिए नहीं दिया जाएगा ।
3. विषय वस्तु से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 07492-225700 या Email ID pplciatsvp@crpf.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है ।